

<b>Hi-Tech Institute of Engineering and Technology, Ghaziabad</b> <b>Department of polytechnic</b> <b>MODEL PAPER-1 (2023-24)</b> <b>Course: -Polytechnic 2<sup>nd</sup> Year</b> <b>Branch: - Fashion Design &amp; Garment Technology</b> <b>Subject: - DESIGN IDEAS</b>	
<b>Faculty's Name: - Sadhna Kuntal</b>	<b>Max. Marks :50</b>
<b>SEM: - 3<sup>rd</sup></b>	
<b>Instructions:</b>	<b>1. Be precise to your answer.</b> <b>2. Assume missing data suitably, if any.</b>

<b>QUESTION NO.: 1</b>	
<b>Attempt any three of the following questions. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए</b> <b>(3x5=15)</b>	
<b>A</b>	<b>Explain illustration of design.</b> डिज़ाइन का चित्रण समझाइये।
<b>B</b>	<b>Describe design garment for women.</b> महिलाओं के लिए डिज़ाइन परिधान का वर्णन करें।
<b>C</b>	<b>Differentiate between lining and interlining.</b> लाइनिंग और इंटरलाइनिंग के बीच अंतर बताएं।
<b>D</b>	<b>Describe the types of yokes with diagram.</b> योक के प्रकारों का चित्र सहित वर्णन करें।
<b>E</b>	<b>Explain the types of bifurcated wears.</b> द्विभाजित वस्त्रों के प्रकार समझाइए।

<b>QUESTION NO.: 2</b>	
<b>Attempt any Four of the following questions. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए</b> <b>(4x5=20)</b>	
<b>A</b>	<b>Describe design garment for men.</b> पुरुषों के लिए डिज़ाइन परिधान का वर्णन करें।
<b>B</b>	<b>Explain garments balance as applied to normal and abnormal figure.</b> सामान्य और असामान्य आकृति पर लागू परिधान संतुलन की व्याख्या करें।
<b>C</b>	<b>Explain importance of darts.</b> डार्ट्स का महत्व समझाइये।
<b>D</b>	<b>Explain precautions taken during attaching sleeves.</b> आस्तीन जोड़ने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताएं।
<b>E</b>	<b>Explain different types of cuffs.</b> विभिन्न प्रकार के कफ समझाइये।

<b>QUESTION NO.: 3</b>	
<b>Attempt any three of the following questions. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए</b> <b>(3x5=15)</b>	
<b>A</b>	<b>Explain 5 types of trimmings used for garment construction.</b>

	परिधान निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली 5 प्रकार की ट्रिमिंग की व्याख्या करें।
<b>B</b>	<b>Write short notes on any two of the following: -</b> निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
(i)	<b>Darts - डार्ट</b>
(ii)	<b>Tucks - टक्स</b>
(iii)	<b>Pleats - प्लीट्स</b>
<b>C</b>	<b>What are the proportions of human figure?</b> मानव आकृति का अनुपात क्या है?